

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 100/यूपी-लोकसभा/3/ईसीआई/पत्र/प्रादे./एनएस-III-यूपी/2018/(उपनिर्वाचन) दिनांक : 29 मई, 2018

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

विषय : उत्तर प्रदेश के 2-कैराना संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से उप-निर्वाचन-नया मतदान-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर दिनांक 29.05.2018 के आपके पत्र सं. 1201/सी.ई.ओ-2-2/2-2018 को संदर्भित करने एवं यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58 की उप-धारा 1(कक) के अधीन, आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित 2-कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों पर दिनांक 28 मई, 2018 को हुआ मतदान रद्द किया जाता है और उक्त अधिनियम की धारा 58(2)(क) के अधीन दिनांक 30 मई, 2018 को **पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक** के समय को ऐसी तारीख एवं समय के रूप में नियत किया जाता है जिसके दौरान रिटर्निंग अधिकारियों के लिए हैण्डबुक के अध्याय XIII में निहित आयोग के अनुदेशों के अनुसार नया मतदान होगा:-

क्रम सं.	02-कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खण्ड की संख्या एवं नाम	मतदान केन्द्रों की संख्या जिनमें पुनर्मतदान होगा	मतदान केन्द्रों की कुल संख्या
1.	02 - नकुड़	192,148,145,371,152,228,366,276,364,153,157,136, 174,135,256,225,325,326,146,278,246,356, और 358	23
2.	07 - गंगोह	02,04,06,08,09,17,18,21,41,42,55,88,93,97,104,108, 109,114,115,118,120,127,128,132,135,141,161,183, 189,200,209,210,212,213,214,217,220,223,230,231, 259,267,277,278 और 288	45
3.	09 - थानाभवन	327	1
4.	10 - शामली	85,157,170,262	4
		कुल मतदान केन्द्र	73

2. कृपया यह सुनिश्चित करें कि उस मतदान केन्द्र के मतदान क्षेत्रों में ढोल आदि बजाकर व्यापक प्रचार किया जाए । आयोग को सूचित करते हुए लिखित में राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को सूचित करें। कृपया रिटर्निंग अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारी(रियों) और सभी निर्वाचन संबंधी अधिकारियों को भी तदनुसार सूचित किया जाए। प्रेक्षकों को भी लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए।

3. कृपया पावती दें और की गई कार्रवाई की पुष्टि करें।

भवदीय,

(अनुज जयपुरियार)
प्रधान सचिव